

प्रेस नोट दिनांक 03.06.2022 थाना खेड़ा राठौर, जनपद आगरा

थाना खेड़ा राठौर पुलिस द्वारा जिला कारागार आगरा में निरुद्ध अभियुक्त की पी0सी0आर0 लेकर अभि0 के कब्जे से आलाकत्ल बरामद कराया ।

थाना क्षेत्र के ग्राम चित्रपुरा में हुए दोहरे हत्याकाण्ड से सम्बन्धित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बाह के सफल पर्यवेक्षण में थाना खेड़ा राठौर को कार्यवाही करने हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे ।

मु0अ0सं0 54/21 धारा 302, 147, 148, 149, 506, 34 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण के सम्भावित स्थानों पर पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी कि दिनांक 25.05.2022 को मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त हुकुम सिंह पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम चित्रपुरा थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा ने माननीय न्यायालय जनपद आगरा के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया था ।

पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही का विवरण: -

मु0अ0सं0 54/21 धारा 302, 147, 148, 149, 506, 34 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त हुकुम सिंह पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम चित्रपुरा थाना खेड़ा राठौर, जनपद आगरा ने माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.05.2022 को आत्म समर्पण किया था, जो वर्तमान में जिला कारागार आगरा में निरुद्ध हैं, अभियुक्त हुकुम सिंह उपरोक्त के बयान जिला कारागार आगरा अंकित किये गये थे जिसमें अभियुक्त हुकुम सिंह द्वारा बताया गया कि घटना के पश्चात जब हम लोग इधर उधर भागे थे उसी समय मैंने मौका देखकर शांति नगर तिराहे के पास जंगल झाड़ियों में तमंचा व कारतूस छिपा दिये थे, जिनको चलकर बरामद कराने के बारे में अभियुक्त के द्वारा कथन दिया गया था । अभियुक्त के कथनानुसार मुझ थानाध्यक्ष द्वारा अभि0 हुकुम सिंह उपरोक्त की मा0 न्यायालय आगरा से दिनांक 02.06.2022 से दिनांक 03.06.2022 कुल 19 घण्टे की पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर पीसीआर शुदा अभियुक्त हुकुम सिंह उपरोक्त की निशादेही पर शांति नगर तिराहे के पास जंगल झाड़ियों से एक अदद अबैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कार0 .315 बोर व एक अदद खोरखा कार0 .315 बोर नाजायज बरामद कर नियमानुसार पीसीआर शुदा अभियुक्त हुकुम सिंह उपरोक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा ।

पी0सी0आर0 शुदा अभियुक्त का नाम व आपराधिक इतिहास: -

1. हुकुम सिंह पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम चित्रपुरा थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा ।

आपराधिक इतिहास: -

1. मु0अ0सं0 54/21 धारा 302, 147, 148, 149, 506, 34 भादवि0 थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा ।
2. मु0अ0सं0 32/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना खेड़ा राठौर, जनपद आगरा ।

आला कत्ल बरामदगी विवरण: -

1. एक अदद अबैध तमंचा .315 बोर
2. एक अदद जिन्दा कार0 .315 बोर नाजायज
3. अदद खोखा कार0 .315 बोर नाजायज

आला कत्ल बरामदगी करने वाली टीम: -

1. थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा ।
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा आगरा ।
3. कां0 दुर्गेश कुमार थाना खेड़ा राठौर, जनपद आगरा ।
4. कां0 मोनू कुमार थाना खेड़ा राठौर, जनपद आगरा ।

पुलिस टीम के साथ मु0अ0सं0 54/21 धारा 302,147,148,149,506,34 Ipc थाना खेड़ा - राठौर जनपद आगरा से सम्बन्धित पी0सी0आर0 शुदा अभियुक्त की फोटो



मीडिया सेल जनपद आगरा।